



चार अंश, दशमलव, कोष्ठक के साथ संचालन का क्रम

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$2 \times 12 \div 3 - 4(5,6 - \frac{3}{2}) =$$

$$8(2,1 - \frac{1}{5}) \div 4 \times 3 - 2,1 =$$

$$20(2 + \frac{1}{2}) \div 4 \times 3 - 3,6 =$$

$$5,5 - 5(\frac{1}{3} + 5,6) =$$

$$(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}) \times 4 - \frac{3}{4} =$$

$$2,7 \times 12 \div 3 - 2(\frac{3}{5} + \frac{1}{5}) =$$

$$(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}) \times 2 + \frac{1}{4} =$$

$$(2,9 + 2,5) \times 2 - \frac{1}{2} =$$

$$12(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) \div 3 \times 5 + \frac{2}{5} =$$

$$10(5,8 + 2,6) \div 2 \times 4 - \frac{1}{5} =$$



चार अंश, दशमलव, कोष्ठक के साथ संचालन का क्रम

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$2 \times 12 \div 3 - 4(5, 6 - \frac{3}{2}) = (-\frac{42}{5}) = (-8\frac{2}{5})$$

$$8(2, 1 - \frac{1}{5}) \div 4 \times 3 - 2, 1 = \frac{93}{10} = 9\frac{3}{10}$$

$$20(2 + \frac{1}{2}) \div 4 \times 3 - 3, 6 = \frac{339}{10} = 33\frac{9}{10}$$

$$5, 5 - 5(\frac{1}{3} + 5, 6) = (-\frac{145}{6}) = (-24\frac{1}{6})$$

$$(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}) \times 4 - \frac{3}{4} = \frac{23}{12} = 1\frac{11}{12}$$

$$2, 7 \times 12 \div 3 - 2(\frac{3}{5} + \frac{1}{5}) = \frac{46}{5} = 9\frac{1}{5}$$

$$(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}) \times 2 + \frac{1}{4} = \frac{79}{60} = 1\frac{19}{60}$$

$$(2, 9 + 2, 5) \times 2 - \frac{1}{2} = \frac{103}{10} = 10\frac{3}{10}$$

$$12(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) \div 3 \times 5 + \frac{2}{5} = \frac{102}{5} = 20\frac{2}{5}$$

$$10(5, 8 + 2, 6) \div 2 \times 4 - \frac{1}{5} = \frac{839}{5} = 167\frac{4}{5}$$